

मिलावट पर पुलिस सख्त: आधी रात को डेयरी पर छापा, डेढ़ क्विंटल नकली मावा मिला भिंड

- पुलिस ने पिडौरा गांव में 150 किलो मिलावटी मावा पकड़ा, मौ की चार डेयरियों पर मारा छापा

रौन पुलिस ने पिडौरा गांव में मंगलवार की आधी रात एक दूध डेयरी पर दबिश देकर 150 किलोग्राम मावा, 2 टिन वनस्पति और 1 टिन रिफाइंड पकड़ा। वहीं बुधवार की दोपहर मौ कस्बे में एक साथ चार डेयरियों पर छापा मारकर करीब 5 हजार लीटर दूध, 150 बोरी मिल्क पाउडर, 200 किलोग्राम मावा सहित अन्य केमिकल पकड़े हैं। देर शाम तक फूड सेफ्टी की टीम यहां से सैंपल ले रही थी।

एक माह में पुलिस ने 14 जगह छापा मारकर भारी मात्रा में मिलावटी और नकली सामान पकड़ा है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में फूड सेफ्टी विभाग लगातार सुस्त रवैया अपना रहा है। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सरकार ने जिस विभाग को जिम्मेदारी दी है वह तो सुस्त पड़ा हुआ है। लेकिन पुलिस लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है।

पिछले एक महीने में पुलिस ने 14 दूध डेयरियों और चिलर प्लांट पर छापे मारे। फूड सेफ्टी की टीम को बुलाकर सैंपलिंग कराई। साथ ही उनसे प्रतिवेदन लेकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की। लेकिन कार्रवाई में भी फूड सेफ्टी चीन्हा चीन्हा कर कार्रवाई कर रही है।

150 किलो मावा और दो टिन डालडा पकड़ा

मुखबिर की सूचना पर रौन टीआई कुशल सिंह भदौरिया ने मंगलवार की रात करीब 11.10 बजे पिडौरा गांव में राजपथ उर्फ लला पुत्र इंद्रपाल सिंह राजावत के घर दबिश दी। जहां मिलावटी मावा तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने राजपथ के यहां से 150 किलोग्राम मावा, दो टिन डालडा और एक टिन रिफाइंड पकड़ा। साथ ही फूड सेफ्टी की टीम को सूचना देकर मावा और डालडा का सैंपल कराया। साथ ही आधी रात को करीब 12 बजे रौन पुलिस ने आरोपी राजपथ उर्फ लला पुत्र इंद्रपाल सिंह राजावत के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली। इस कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर प्रवेन्द्र सिंह, नादिर खान और एसआई देवेन्द्र भदौरिया सहित अन्य स्टाफ शामिल रहा।

मौ में 1800 लीटर दूध कराया नष्ट

बुधवार को पुलिस ने कस्बे में संचालित चार दूध डेयरियों पर एक साथ दबिश दी। जहां से बड़ी मात्रा में नकली दूध, रिफाइंड ऑयल सहित अन्य सामान पकड़ा। पुलिस ने फूड सेफ्टी ऑफिसर बृजेश शिरोमणि और रीना बंसल को मौके पर बुलाकर इनकी सैंपलिंग भी कराई है।

बताया जा रहा है कि सेवाराम यादव निवासी झंडू मोहल्ला के यहां से पुलिस ने 1500 लीटर दूध, 50 किलोग्राम मावा, 4 कट्टे मिल्क पाउडर, 11 टिन वनस्पति पकड़ा। फूड सेफ्टी की टीम ने यहां मावा, दूध, दूध पाउडर, वनस्पति के सैंपल लिए हैं। वहीं राजू परिहार के यहां से 300 लीटर दूध 30 किलो मावा, 2 कट्टे मिल्क पाउडर, 7 टिन रिफाइंड ऑयल पकड़ा। इन सभी के सैंपल लिए गए हैं। वहीं दोनों लोगों के यहां मिले 1800 लीटर दूध को नष्ट भी करा दिया गया। इस कार्रवाई में मौ, मालनपुर और गोहद चौराहा पुलिस शामिल रही।

एक पर एफआईआर, दूसरे को राहत

20 दिसंबर को सीएसपी आनंद राय के नेतृत्व में पुलिस ने अटेर रोड पर लक्ष्मी डेयरी से नकली दूध और मिल्क पाउडर सहित व केमिकल पकड़ा था, इसके बाद डेयरी संचालक की निशानदेही पर महावीर गंज में दिलीप जैन के गोदाम से मिल्क पाउडर की 105 बोरियां पकड़ी।

इसके बाद फूड सेफ्टी की टीम ने डेयरी संचालक और उक्त दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रतिवेदन तो भेज दिया। लेकिन उसके पड़ोस में एक गोदाम से 150 से ज्यादा मिल्क पाउडर की बोरियां मिली थीं, जिस पर एफआईआर के लिए प्रतिवेदन फूड विभाग की ओर से नहीं गया है। 7 जनवरी को पुलिस ने पावई में गांव में एक डेयरी पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में मिलावटी दूध और केमिकल पकड़े, जिसके बाद फूड सेफ्टी की टीम को बुलाया गया तो उसने सैंपलिंग ही नहीं की।

145 बोरी मिल्क पाउडर और 35 टिन घी पकड़ा

मौ पुलिस ने कस्बे में मलखान सिंह यादव के यहां से 55 बोरी मिल्क पाउडर, मुकेश शिवहरे के यहां से 90 बोरी मिल्क पाउडर पकड़ा है। इसी प्रकार से राहुल यादव के यहां 25 टिन घी और तेज सिंह राठौर के यहां से 10 टिन घी पकड़ा है। इन सभी के सैंपल लिए जा रहे हैं।

जिसकी कनेक्टिविटी मिलती है, उस पर कार्रवाई

मिलावट करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। महावीर गंज में जिसके गोदाम में बड़ी मात्रा में मिल्क पाउडर पकड़ा गया था, उसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं मिली थी। इसलिए उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध नहीं कराया गया, जिससे कनेक्टिविटी मिली थी उस पर कार्रवाई कराई गई।

- बृजेश शिरोमणी, फूड सेफ्टी ऑफिसर, भिंड

कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन फूड विभाग भेजता है

मिलावट दूध, मावा बनाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। महावीर गंज में जिस गोदाम में बड़ी मात्रा में मिल्क पाउडर मिला था उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने के लिए फूड विभाग की ओर से प्रतिवेदन आना है। तभी कार्रवाई हो पाएगी।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/mp/gwalior/bhind/news/dairy-raided-at-midnight-one-and-a-half-quintal-fake-mawa-found-128145631.html>